



Dhampur Sugar Mills Limited

241, Okhla Industrial Estate, Phase- III

New Delhi – 110 020, India

Tel: +91-11-3065 9400, 4161 2456

Tele Fax +91-11-2693 5697

E - Mail : corporateoffice@dhampur.com

Website: www.dhampur.com

04.08.2021

To,
The Manager - Listing
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai - 400 051
Tel No. 022-2659 8237 /38
Symbol: DHAMPURSUG

The General Manager – DSC
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai: 400001
Tel No.022-22722039/37/3121
Security Code: 500119

Dear Sir,

Sub: Submission of copy of newspaper advertisement


Please find enclosed the copies of the newspaper advertisement published today pertaining to the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2021, pursuant to the Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The advertisement copies will also be made available on the Company's website at the following web link: www.dhampur.com.

You are requested to take the information on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **Dhampur Sugar Mills Limited**


Aparna Goel
Company Secretary
M. No.-22787



CIN: L15249UP1933PLC000511

Regd. Off: Dhampur, Distt. Bijnor, Pin Code : 246761 (U.P.)

Branch Office : 1/125, Vijay Khand, Gomti Nagar, Lucknow -226010 (U.P.), Tel : +91-522-239243

Sugar Units:1. Dhampur,2. Mansurpur,3. Asmoli, 4. Rajpura,5. Meerganj

Distillery: Asmoli & Dhampur

NITIN SPINNERS LIMITED					
Regd. Office : 16-17 Km. Stone, Chittoor Road, Hamirgarh, Bhilwara - 311 025 (Rajasthan) CIN L17111RJ1992PLC006987 • Tel. : +91 1482 286110 ; Fax : 91 1482 286117. • Website : www.nitinspinners.com • E-Mail: nsl@nitinspinners.com					
EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2021					
(Rs. in Lacs)					
S. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020	31.03.2021
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations (Net)	55386.65	51175.27	21991.18	162631.15
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items)	9288.93	6644.10	(1384.69)	10651.86
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional items)	9288.93	6644.10	(1384.69)	10651.86
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional items)	6001.35	4285.51	(915.16)	6887.19
5	Total Comprehensive Income/(Loss) for the period [(Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income/(Loss) (after tax)]	5939.02	4248.12	(654.81)	7268.75
6	Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/- each)	5622.00	5622.00	5622.00	5622.00
7	Reserves i.e. Other Equity		50712.75		50712.75
8	Earning Per Share (Rs. Per Shares) of (Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)-				
	1. Basic	10.67	7.62	(1.63)	12.25
	2. Diluted	10.67	7.62	(1.63)	12.25

Note:
The above is an extract of the detailed Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2021 filed with the Stock Exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com, www.nseindia.com and Company's website www.nitinspinners.com.

For and on behalf of Board of Directors
For Nitin Spinners Ltd

(R.L. Nolkha)
Chairman
DIN - 0060746

Date : 03.08.2021
Place : Hamirgarh (Bhilwara)

Indian Overseas Bank
Inspection Department
Central Office: 763, Anna Salai,
Chennai-600002

INDIAN OVERSEAS BANK (IOB) INVITES
REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)

FOR CONDUCT OF CONTINUOUS
FUNCTIONAL AUDIT OF CBS
(CORE BANKING SOLUTION)

The RFP document for the above
tender is available at our bank's
Website and E-tender portal
<https://www.iob.in/tenderlist.aspx>
<https://iobtenders.auctiontiger.net/EPROC>

The last date for submitting Bid proposal is
20 Aug 2021 (1700 hrs)
For RFP amendments/clarification/ updates,
if any, kindly visit our website.

पंजाब नैशनाल बैंक Punjab National Bank
...पंजाबी का पुराणिक ! ...the name you can BANK upon !

Information Technology Division, HO, 5, Sansad Marg,
New Delhi - 110 001
(Email ID: itdhw@pnb.co.in, Phone: 011-23311452)

Tender Notice

Punjab National Bank invites online bids (both technical and commercial) through GeM Portal (Government e Marketplace) from eligible bidders for procurement of Arcsight Licenses for PNB, CISD, Head Office, 5-SANSAD MARG, NEW DELHI-110001.

Interested bidders may visit website <https://gem.gov.in/> for details. Last date for online bid submission is 24.08.2021 at 1600 hrs.

Date: 03.08.2021 Assistant General Manager

बैंक ऑफ बड़ोदा Bank of Baroda
www.bankofbaroda.in

TENDER NOTICE

Bank of Baroda invites proposal for procurement of Notebook PCs (Empanelment of Vendor having Class-I or Class-II Notebook PCs as per Govt of India Make-in-India (MII) guidelines).

Details are available under Tenders section on Bank's website: www.bankofbaroda.in.

"Addendum", if any, shall be issued on Bank's website under tenders section i.e. on www.bankofbaroda.in. Bidder should refer the same before final submission of the proposal.

Last date for submission of above RFP will be on 2nd September 2021.

Place: Mumbai
Date: 04/08/2021 Chief Technology Officer

PRESTIGE ESTATES PROJECTS LIMITED
CIN: L07010KA1997PLC022322
Registered Office: Prestige Falcon Tower, No.19, Brunton Road, Bengaluru - 560025
Tel: +91 80 25591080, Fax: +91 80 25591945
Email: investors@prestigeconstructions.com; Website: www.prestigeconstructions.com

NOTICE

Sub: Transfer of equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account

NOTICE is hereby given that pursuant to provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 and Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended from time to time ("the Rules"), the Company is required to transfer / credit all such shares in respect of which dividend has not been claimed by the Shareholder for seven consecutive years to the Investor Education and Protection Fund.

Shareholders are requested to note that the dividend declared during the Financial Year 2013-14 which remained unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to Unpaid Dividend Account will be due to be credited to the IEPF in November, 2021. The corresponding shares on which dividend was unclaimed for seven consecutive years will also be transferred as per the procedure set out in the Rules. The company has sent individual notices to the concerned shareholders providing details and process of the shares to be transferred to the authority.

Please note that the due date for claiming unpaid / unclaimed dividend amount(s), declared during the Financial Year 2013-14, is October 31, 2021. All concerned Shareholder(s) are requested to make an application to the Company/Company's Registrar and Share Transfer Agents with a request for claiming unpaid/unclaimed dividend for the year 2013-14 and onwards to enable processing the claims before the due date.

In case no valid claim in respect of unclaimed dividend is received from the concerned Shareholder(s) by due date, the Company shall, in compliance with the aforesaid Rules, transfer the dividend and corresponding shares to the IEPF authority without any further notice.

The concerned shareholder (s) would be entitled to claim the transferred shares and dividend from IEPF Authority by making an Application in the prescribed E-form IEPF-5 and sending the physical copy of the requisite documents prescribed in Form IEPF-5, to the Nodal Officer of the Company.

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF pursuant to the said Rules.

The list of shareholder(s) along with relevant details, whose shares are liable to be transferred to the Demat account of the IEPF Authority is uploaded on the website of the Company at www.prestigeconstructions.com

For further information /clarification, shareholders may write or contact to:
(I) Company's Registrar and Transfer Agent, M/s. Link Intime India Pvt. Ltd., C 101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S Marg, Vikhroli West, Mumbai 400 083, Tel No: +91 22 49186270 Fax: +91 22 49186060; e-mail: iepf.shares@linkintime.co.in

Date: 02.08.2021
Place: Bengaluru

For and on behalf of Prestige Estates Projects Limited
Sd/-
Manoj Krishna JV
Company Secretary and Compliance Officer



Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2021

S. No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended
		30/Jun/21 (Unaudited)	31/Mar/21 (Unaudited)	30/Jun/20 (Unaudited)	31/Mar/21 (Audited)
1	Total income from continuing operations (net)	88,370.98	107,829.23	110,260.23	424,896.59
2	Net profit/(loss) for the period before tax and exceptional items	5,990.55	12,858.80	7,194.38	31,526.27
3	Net profit/(loss) for the period before tax and after exceptional items	5,990.55	12,858.80	7,194.38	31,526.27
4	Net profit/(loss) for the period after tax from continuing operations	4,359.92	9,149.96	5,421.23	22,908.60
5	Profit/(Loss) from discontinued operation before tax	(1.19)	(6.18)	59.71	(12.07)
6	Profit/(Loss) from discontinued operation after tax	(1.19)	(6.18)	59.71	(12.07)
7	Net profit/(loss) for the period/year (4+6)	4,358.73	9,143.78	5,480.94	22,896.53
8	Total comprehensive income for the period	4,546.72	9,171.14	6,142.13	23,746.55
9	Paid-up equity share capital	6,638.76	6,638.76	6,638.76	6,638.76
10	Other Equity				149,361.00
11	i) Earnings per equity share (EPS) from continuing operations (weighted average) (of ₹ 10/- each) (not annualised) :				
	a) Basic (₹ per share)	6.57	13.78	8.17	34.54
	b) Diluted (₹ per share)	6.57	13.78	8.17	34.54
	ii) Earnings per equity share (EPS) from discontinued operations (weighted average) (of ₹ 10/- each) (not annualised) :				
	a) Basic (₹ per share)	-	(0.01)	0.09	(0.02)
	b) Diluted (₹ per share)	-	(0.01)	0.09	(0.02)
	iii) Earnings per equity share (EPS) from total operations (weighted average) (of ₹ 10/- each) (not annualised) :				
	a) Basic (₹ per share)	6.57	13.77	8.26	34.52
	b) Diluted (₹ per share)	6.57	13.77	8.26	34.52

Notes:

- The management has considered the possible impact of COVID-19 in preparation of the above financial results of the quarter, including internal and external factors known upto the date of approval of these results, to assess and finalise the carrying amount of its assets and liabilities. Accordingly as on date, no material impact is anticipated in the aforesaid carrying amounts. However, the impact of COVID-19 may be different from that estimated as at the date of approval of these financial statements and the Company will continue to closely monitor any material changes in future economic conditions.
- The Management of M/s Ehaat Ltd., a wholly owned subsidiary engaged in the business of E-Commerce, has decided to close down its operations in the quarter ended March 2020. Accordingly, the financials of the subsidiary company have been consolidated and presented as "Discontinued Operations" in the above consolidated financial results.
- These results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standard (referred to as "Ind AS") 34 Interim Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time. The above Consolidated financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on August 03, 2021. The statutory auditors have carried out a limited review of these financial results
- The Board of Directors of the Company in its meeting held on 07th June 2021 approved a Scheme of Arrangement for demerger of business of Asmoli Unit, Mansurpur Unit and Meeranj Unit into Dhampur Bio Organics Limited, the resulting company, which shall be listed on both the stock exchanges with a mirror shareholding. The Company has filed requisite application with BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. Upon receipt of no objection certificate from the stock exchanges, the demerger scheme shall be filed with National Company Law Tribunal, Allahabad Bench. Pending regulatory approvals and other compliances, the financial results of the company have been prepared without giving impact of the demerger scheme.
- The figures for the quarters ended March 31, 2021 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and the published unaudited year to date figures upto the third quarter of the respective financial year, which were only reviewed and not subject to audit.
- Sugar being a seasonal industry, the performance of the quarter may not be representative of the annual performance of the Company.
- Standalone Information:

Particulars	Quarter Ended			Year Ended
	30/Jun/21 (Unaudited)	31/Mar/21 (Unaudited)	30/Jun/20 (Unaudited)	31/Mar/21 (Audited)
Total revenue	88370.50	110236.65	109036.97	423350.72
Profit before tax	6172.95	11395.55	7244.88	30503.22
Profit after tax	4542.32	7686.71	5471.73	21885.55
Other comprehensive income (OCI)	183.19	54.75	605.59	824.50
Total comprehensive income	4725.51	7741.46	6077.32	22710.05

8 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated quarterly unaudited financial results are available on stock exchange websites i.e <https://www.nseindia.com> and <https://www.bseindia.com> and on Company's website i.e. www.dhampur.com.

9 Figures for the previous corresponding periods have been regrouped, wherever considered necessary.

For and on behalf of the board
Sd/-
V.K. Goel
Chairman

Place : New Delhi
Dated : August 03, 2021

WABAG VA TECH WABAG LIMITED
sustainable solutions for a better life
Regd. office: "WABAG HOUSE", No.17, 200 Feet Thoraipakkam - Pallavaram
Main Road, Sunnambu Kolathur, Chennai 600 117, Tamil Nadu, India
T : +91 6123 2323 | F : +91 6123 2324

NOTICE OF 26TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E - VOTING INFORMATION

Dear Members,

Notice is hereby given that the Twenty Sixth (26th) Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be convened on Wednesday, August 25, 2021 at 3:00 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility to transact the business as set out in the Notice of the AGM.

The Company has sent the Notice of AGM & Annual Report of the Company inter-alia, containing the Financial Statements and other statutory reports for the year ended 31st March 2021 to the Members, through electronic mode on Tuesday, August 3, 2021, whose e-mail addresses are registered with the Company/RTA Depository Participants in accordance with the Circular No.20/2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs dated 5th May, 2020 read with Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020 and Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021 ("MCA Circulars") and Securities Exchange Board of India ("SEBI") Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 and SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 15th January, 2021 and 12th May 2020 respectively, (collectively referred to as "SEBI Circulars").

Members may also note that the Notice of 26th AGM along with the explanatory statement and the Annual Report for the Financial Year 2020-21 is available on the Company's website at www.wabag.com and on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of KFin Technologies Private Limited, Registrar and Transfer Agents ("KFinTech") at <https://evoting.kfintech.com/>.

Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 2015, the Register of Members and share transfer books remain closed from Saturday, August 14, 2021 to Wednesday, August 25, 2021 (both days inclusive).

Since the AGM is being held pursuant to MCA Circulars / SEBI Circulars through VC/ OAVM, the physical attendance of members has been dispensed with. Accordingly the facility of appointment of proxies by the member will not be available for the AGM.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using remote electronic voting facility (remote e-voting) provided by KFinTech. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM (e-voting). Detailed procedure for remote e-voting / e-voting are provided in the Notice of the AGM. All members are informed that:

- The instructions for participating through VC and the process of e-voting, including the manner in which Members holding shares in physical form or who have not registered their e-mail address can cast their vote through e-voting, are provided as part of the Notice of the 26th AGM.
- The Members whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut-off date, which is Wednesday, August 18, 2021 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting & voting at the AGM.
- The remote e-voting period will commence from Friday, August 20, 2021 at 9.00 a.m. (IST) and will end on Tuesday, August 24, 2021 at 5.00 p.m. (IST). Members will not be able to cast their vote electronically as envisaged herein, beyond the date and time mentioned above.
- Eligible Members who have acquired shares after the dispatch of Annual Report and holding shares as on the cut-off date i.e. Wednesday, August 18, 2021, may obtain the User Id and password by following the procedures mentioned in the Notice.
- Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM through VC/OAVM, but shall not be entitled to cast their vote again. Members who have not cast their vote through remote e-voting and are present in the AGM through VC/OAVM, shall be eligible to vote through e-voting at the AGM.
- The Company has appointed Mr. M Damodaran of M. Damodaran & Associates LLP, Practicing Company Secretaries, as Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.
- Members who have not registered their email ids so far, are requested to register their email ids for receipt of all Communication from the Company, in respect of shares held in electronic form with the Depository through their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form by writing to the Company's RTA viz., KFin Technologies Private Limited, Selenium Tower B, Plot 31 & 32, Financial District, Nanakramuguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500 032, Telangana.
- In case of any query and/or grievance, in respect of voting by electronic means, Members may refer to the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting user manual available at the download section of <https://evoting.kfintech.com> (KFinTech Website) or call KFinTech's toll free No.1-800-309-4001 for any further clarifications.
- We thank our Members for supporting the "Green Initiative" in Corporate Governance undertaken by the Ministry of Corporate Affairs and the Company. We request our Members to please note that all future communication to shareholder(s) would be sent in electronic mode to the registered e-mail address. Therefore, please ensure to inform any change in your e-mail address to your Depository Participant (in case of shares held in demat mode) or the Company/RTA (in the case of shares held in physical mode).

For VA TECH WABAG LIMITED
R. Swaminathan,
Company Secretary
Membership No: A17696

Date : 03.08.2021
Place : Chennai

DHAMPUR SUGAR MILLS LIMITED
Regd. Office : Distt. Bijnor, Dhampur (U.P.) - 246761
CIN - L15249UP1933PLC000511, Phone No - 011-30659400, 30659453
Email: investordesk@dhampur.com, Website: www.dhampur.com

नायिका लागी आईपीओ

शिवानी शिंदे
मुंबई, 3 अगस्त

भारत का पहला महिला-केंद्रित लाभकारी यूनिकॉर्न स्टार्टअप अपनी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) लाने की तैयारी कर रही है। ऑनलाइन ब्यूटी एप्रीगेटर नायिका ताजा इक्विटी निगम के जरिये 525 करोड़ रुपये जुटाने की संभावना तलाश रहा है। मीडिया खबरों के अनुसार कंपनी ने 4,000 करोड़ रुपये की कुल पूंजी जुटाने की योजना बनाई है।

बाजार नियामक सेबी को सौंपे गए कंपनी के आईपीओ संबंधित आवेदन प्रस्ताव के अनुसार, प्रवर्तक और निवेशक दोनों 4.31 करोड़ शेयरों तक की बिक्री की पेशकश के जरिये आंशिक रूप से बिकवाली करेंगे। ओएफएस के जरिये बिक्री का विकल्प अपनाने वालों में प्रवर्तक संजय नायर फैमिली ट्रस्ट (48 लाख), और टीपीजी ग्रोथ-4, लाइटहाउस इंडिया फंड-3, लाइटहाउस इंडिया-3 इम्प्लॉयी ट्रस्ट, जेएम फार्मेशियल एंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी, सुनील कान्त मुंजाल जैसे निवेशक शामिल हैं।

पूर्व निवेश बैंकर फाल्गुनी नायर द्वारा स्थापित नायिका कंपनी का आईपीओ पहले से प्रस्तावित है। नायिका कई अन्य स्टार्टअप से अलग है। डीआरएचपी यानी आईपीओ के लिए आवेदन प्रस्ताव के अनुसार, आईपीओ-पूर्व प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह की कुल 54.25 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

डीआरएचपी के अनुसार, वित्त वर्ष 2021 में परिचालन से नायिका का राजस्व 2,440.89 करोड़ रुपये पर रहा, जो वित्त वर्ष 2020 के मुकाबले 38.10 प्रतिशत ज्यादा है। संस्थापक भागीदार डब्ल्यूईएच वेंचर्स के दीपक गुप्ता ने कहा, 'नायिका सही मायने में श्रेणी को परिभाषित करने वाली कंपनी है।

कार्ट्रेड का आईपीओ 9 अगस्त को खुलेगा

अरिदम मजूमदार
नई दिल्ली, 3 अगस्त

मल्टी चैनल ऑटो मार्केटप्लेस कार्ट्रेड टेक आरंभिक सार्वजनिक निगम के जरिये करीब 3,000 करोड़ रुपये जुटाएगी। यह आईपीओ 9 अगस्त को खुलेगा

देवयानी इंटरनेशनल के सार्वजनिक निर्गम

में आवेदन की सलाह दे रहे ब्रोकर

सलोनी गोयल
नई दिल्ली, 3 अगस्त

भारत में यम ब्रांडों की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स (क्यूएसआर) की बड़ी परिचालकों में से एक देवयानी इंटरनेशनल बुधवार को आरंभिक सार्वजनिक निगम पेश करने जा रही है। कैफेफ़सी, पिज्जा हट और कोस्टा कॉफी जैसे मशहूर फूड व कॉफी ब्रांड की परिचालक ने शेयरों का कीमत दायरा 86 से 90 रुपये प्रति शेयर तय किया है और कीमत दायरे के ऊपरी स्तर पर 1,838 करोड़ रुपये के इस्तेमाल को उम्मीद कर रही है। इस आईपीओ में मुख्य रूप से ऑफर फॉर सेल के तहत शेयरों की बिक्री हो रही है जबकि नए शेयर मजहज 440 करोड़ रुपये के हैं, जिसका इस्तेमाल कंपनी 324 करोड़ रुपये के कर्ज भुगतान में करेगी।

कीमत दायरे के ऊपरी स्तर पर कंपनी का बाजार पूंजीकरण वित्त वर्ष 21 की बिक्री का 9.5 गुना बैठता है जबकि जुबिलेंट फूडवर्क्स का

सुभाष चंद्रा ने 91 फीसदी कर्ज का निपटान किया

बीएस संवाददाता
मुंबई, 3 अगस्त

एस्सेल समूह के संस्थापक सुभाष चंद्रा ने 43 लेनदारों के साथ 91 फीसदी कर्ज का निपटान कर दिया है और बाकी रकम चुकाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। चंद्रा ने आज एक खुले पत्र में कहा, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हम अपने कर्ज का 91 फीसदी का निपटान 43 लेनदारों के साथ कर वित्तीय दबाव की स्थिति से बाहर निकल आए हैं। इस रकम का 88.3 फीसदी भुगतान किया जा चुका है, वहीं



आईपीओ से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल नायिका रिटेल स्टोर खोलने, कर्ज अदायगी में करेगी

उसने पूंजी के उचित इस्तेमाल के जरिये अपनी खास पहचान बनाई है, जो उन कई अन्य स्टार्टअप से अलग है जो आईपीओ लाए हैं या लाने की योजना बना रहे हैं। नायिका ऐसे स्टार्टअप का उदाहरण है जो लाभकारी, पूंजी सक्षम और शानदार बिजनेस मॉडल वाला है। इससे पता चलता है कि सभी स्टार्टअप को दायरा बढ़ाने और बाजार दबदबा मजबूत बनाने के लिए पूंजी को लेकर ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं होती। हमारा मानना है कि यह उन निवेशकों के लिए अच्छा संदेश है जो फिलहाल स्टार्टअप आईपीओ पर दांव लगा रहे हैं और आईपीओ बाजार के इस सेगमेंट की मध्यावधि ताकत के लिहाज से अच्छा संकेत है। आईपीओ के जरिये हासिल होने वाले कोष के इस्तेमाल के संदर्भ में कंपनी का कहना है कि वह अपनी सहायक इकाइयों एफएसएन ब्रांड और/या नए रिटेल स्टोरों की स्थापना, पूंजीगत खर्च, कर्ज अदायगी के लिए नाइका फेशन में निवेश पर इस रकम का उपयोग करेगी।

विश्लेषकों का मानना है कि चूंकि नायिका लाभकारी कंपनी है, जिससे आईपीओ का आकार यह दर्शाता है कि उसे निवेश के संदर्भ में क्या जरूरत है। वेंचर डेट

प्लेटफॉर्म ब्लैकसोइल के सह-संस्थापक और निदेशक अंकुर बंसल ने कहा, 'आईपीओ का आकार कंपनी के मूल्यांकन, आगामी व्यावसायिक योजनाओं के लिए कंपनी के लिए पूंजीगत जरूरत, उसके इस्तेमाल आदि जैसे कई कारकों पर केंद्रित है। ये सभी उपर्युक्त कारक सभी स्टार्टअप के लिए अलग अलग होंगे और एक-दूसरे से इनकी तुलना नहीं की जा सकेगी। नायिका पूंजी सक्षम है, क्योंकि उसकी लाभकारी स्थिति की वजह से उसे अन्य स्टार्टअपों के मुकाबले बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत नहीं है। साथ ही वह उन कुछ स्टार्टअप में से एक है जिनमें संस्थापक की लगातार बड़ी हिस्सेदारी रहती है और वे एक सीमा से आगे इसे घटाना नहीं चाहते।' पुरे भारत के 38 शहरों में नाइका के ऑफलाइन चैनल में 73 पारंपरिक स्टोर शामिल हैं और 31 मार्च 2021 तक उसके तीन अलग अलग स्टोर फॉर्मेट थे। 31 मार्च 2021 तक, नायिका ने विभिन्न बिजनेस वर्टिकलों में 3,826 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों के उपभोक्ताओं से करीब 20 लाख एस्क्यू दर्ज की थी।

मिलेगी। कंपनी के प्रबंध निदेशक विनय सांघी ने कहा, हमारी कंपनी लाम्प में है। हमारे पास टीक-टाक नकदी है, जो सभी निवेश व अधिग्रहण के लिए पर्याप्त है, जिसकी हम भविष्य में योजना बना सकते हैं। ऐसे में हम सिर्फ ओएफएस पेश करेंगे।

जुड़ाव यम ब्रांड व उसके विपणन व परिचालन अनुभव के साथ है, जो उसे क्यूएसआर उद्योग में विस्तृत कंपनी के तौर पर स्थापित करता है। 31 मार्च, 2021 को देश के 155 शहरों में 655 आउटलेट परिचालन में थे। विश्लेषकों ने कहा कि क्यूएसआर के तहत फास्ट फूड कल्चर भारत में और बढ़ने वाला है क्योंकि यहां वर्किंग क्लास की आबादी बढ़ रही है और शहरीकरण में इजाफा हो रहा है।

2015-20 के दौरान क्यूएसआर की वैल्यू सेल्स 5.5 फीसदी सालाना चक्रवृद्धि की रफ्तार से बढ़ी और रेलिगेयर ब्रोकिंग का मानना है कि यह 12.4 फीसदी पर पहुंच सकती है। कंपनी अपने स्टोर नेटवर्क का विस्तार कर रही है। वित्त वर्ष 21 की पहली छमाही में उसने 109 स्टोर खोले।

कंपनी ने हालांकि पिछले तीन साल में नुकसान दर्ज किया है, पर उसका एंबिटा मार्जिन वित्त वर्ष 19-21 के दौरान 17.3 फीसदी के संतोषजनक स्तर पर रहा। साथ ही नकदी सृजन उत्पादनक रहा है।

की पूरी हिस्सेदारी बेचने का मामला शामिल था। कर्ज समाधान के अहम तथ्य साझा करते हुए चंद्रा ने कहा कि वह इस वित्त वर्ष के समाप्त होने से पहले बाकी कर्ज का भुगतान कर देंगे। उन्होंने इस वास्तविकता पर भी जोर दिया कि अपने अहम कारोबार का बड़ा हिस्सा बिकने का उन्हें मलाल नहीं है और कहा कि वह फेसला उन्होंने परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए लिया था। उन्होंने दोहराया कि वह बुनियादी ढांचा, वित्तीय सेवा और नुकसान वाले प्रिंट मीडिया कारोबारों से बाहर निकलेंगे।

हो सकता है श्रीराम ट्रांसपोर्ट, श्रीराम सिटी का विलय

शाइन जैकब
चेन्नई, 3 अगस्त

श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने सोमवार को कहा कि कंपनी श्रीराम सिटी यूनिथन फाइनेंस के साथ विलय की योजना पर दोबारा नजर डाल रही है और यह शायद अनिवार्य रूप से तीन स्तरीय विलय नहीं होगा, जिसकी योजना शुरू में बनी थी। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी उमेश रेवांकर ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, हम इस

पर अभी भी विचार कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि क्या हमें विलय से फायदा मिलेगा। अगर हमें फायदा मिलेगा तो हम निश्चित तौर पर इस पर नजर डालेंगे। शुरुआती योजना तीन स्तरीय विलय की थी, जिसमें असूचीबद्ध श्रीराम कैपिटल (जिसमें अरबपति अजय पीरामल और प्राइवेट इक्विटी फर्म टीपीजी कैपिटल निवेशक है), सूचीबद्ध श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और श्रीराम सिटी यूनिथन फाइनेंस का विलय होना था। रेवांकर ने कहा, पिछले दो वर्षों से हम महामारी से

जुझ रहे हैं और उससे पहले आईएलएंडएफएस का संकट था। ऐसे में हम इस पर वास्तव में चर्चा नहीं कर पाए। रेवांकर ने कहा कि इस योजना पर निदेशक मंडल में चर्चा होनी अभी बाकी है। उन्होंने कहा, सबसे पहले हमें निदेशक मंडल की मंजूरी लेनी होगी। अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। यह तीन स्तरीय विलय शायद नहीं होगा। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस मुख्य रूप से वाहनों के वित्त पोषण आदि से जुड़ी है।

बैजूज: अमेरिका से आय का लक्ष्य

पूट-1 का शेष

इस साल पूंजी जुटाने के समय कंपनी का मूल्यांकन 16.5 अरब डॉलर था। रवींद्र ने कहा कि बैजूज ने अमेरिका और भारत दोनों जगह सूचीबद्धता का विकल्प खुला रखा है। रवींद्र ने कहा कि बैजूज के पास 1 अरब डॉलर से ज्यादा नकदी है। उन्होंने कहा, 'हमें जब तक कोई बड़ा अधिग्रहण का अवसर नहीं दिखता है तब तक और पूंजी जुटाने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि हम छोटे अधिग्रहणों पर पैसा निवेश करेंगे।' अमेरिका में एडु टेक की बड़ी कंपनियों में चेग शामिल है, जिसकी आय 64.4 करोड़ डॉलर है। इस बीच बैजूज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे बाजारों में विस्तार कर रही है। हाल ही में इसे लैटिन अमेरिका में भी परिचालन शुरू किया है। भारत में आकाश इंस्टीट्यूट का अधिग्रहण जरूर चकित करने वाला रहा क्योंकि कंपनी इसके जरिये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में पैट बनाना चाह रही है। आकाश का 120 शहरों में 200 केंद्र हैं। रवींद्र ने कहा कि हमारा लक्ष्य इसकी संख्या 50 फीसदी बढ़ाने की है।

DIL MEIN MITHAAS

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2021

		₹ In Lacs			
S. No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended
		30/Jun/21 (Unaudited)	31/Mar/21 (Unaudited)	30/Jun/20 (Unaudited)	31/Mar/21 (Audited)
1	Total income from continuing operations (net)	88,370.98	107,829.23	110,260.23	424,896.59
2	Net profit/(loss) for the period before tax and exceptional items	5,990.55	12,858.80	7,194.38	31,526.27
3	Net profit/(loss) for the period before tax and after exceptional items	5,990.55	12,858.80	7,194.38	31,526.27
4	Net profit/(loss) for the period after tax from continuing operations	4,359.92	9,149.96	5,421.23	22,908.60
5	Profit/(Loss) from discontinued operation before tax	(1.19)	(6.18)	59.71	(12.07)
6	Profit/(Loss) from discontinued operation after tax	(1.19)	(6.18)	59.71	(12.07)
7	Net profit/(loss) for the period/year (4+6)	4,358.73	9,143.78	5,480.94	22,896.53
8	Total comprehensive income for the period	4,546.72	9,171.14	6,142.13	23,746.55
9	Paid-up equity share capital	6,638.76	6,638.76	6,638.76	6,638.76
10	Other Equity				149,361.00
11	i) Earnings per equity share (EPS) from continuing operations (weighted average) (of ₹ 10/- each) (not annualised) :				
	a) Basic (₹ per share)	6.57	13.78	8.17	34.54
	b) Diluted (₹ per share)	6.57	13.78	8.17	34.54
	ii) Earnings per equity share (EPS) from discontinued operations (weighted average) (of ₹ 10/- each) (not annualised) :				
	a) Basic (₹ per share)	-	(0.01)	0.09	(0.02)
	b) Diluted (₹ per share)	-	(0.01)	0.09	(0.02)
	iii) Earnings per equity share (EPS) from total operations (weighted average) (of ₹ 10/- each) (not annualised) :				
	a) Basic (₹ per share)	6.57	13.77	8.26	34.52
	b) Diluted (₹ per share)	6.57	13.77	8.26	34.52

Notes:

- The management has considered the possible impact of COVID-19 in preparation of the above financial results of the quarter, including internal and external factors known upto the date of approval of these results, to assess and finalise the carrying amount of its assets and liabilities. Accordingly as on date, no material impact is anticipated in the aforesaid carrying amounts. However, the impact of COVID-19 may be different from that estimated as at the date of approval of these financial statements and the Company will continue to closely monitor any material changes in future economic conditions.
- The Management of M/s Ehaat Ltd., a wholly owned subsidiary engaged in the business of E-Commerce, has decided to close down its operations in the quarter ended March 2020. Accordingly, the financials of the subsidiary company have been consolidated and presented as "Discontinued Operations" in the above consolidated financial results.
- These results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standard (referred to as "Ind AS") 34 Interim Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time. The above Consolidated financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on August 03, 2021. The statutory auditors have carried out a limited review of these financial results.
- The Board of Directors of the Company in its meeting held on 07th June 2021 approved a Scheme of Arrangement for demerger of business of Asmoli Unit, Mansurpur Unit and Meerganj Unit into Dhampur Bio Organics Limited, the resulting company, which shall be listed on both the stock exchanges with a mirror shareholding. The Company has filed requisite application with BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. Upon receipt of no objection certificate from the stock exchanges, the demerger scheme shall be filed with National Company Law Tribunal, Allahabad Bench. Pending regulatory approvals and other compliances, the financial results of the company have been prepared without giving impact of the demerger scheme.
- The figures for the quarters ended March 31, 2021 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and the published unaudited year to date figures upto the third quarter of the respective financial year, which were only reviewed and not subject to audit.
- Sugar being a seasonal industry, the performance of the quarter may not be representative of the annual performance of the Company.
- Standalone Information:

		₹ In Lacs			
Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
	30/Jun/21 (Unaudited)	31/Mar/21 (Unaudited)	30/Jun/20 (Unaudited)	31/Mar/21 (Audited)	
Total revenue	88370.50	110236.65	109036.97	423350.72	
Profit before tax	6172.95	11395.55	7244.88	30503.22	
Profit after tax	4542.32	7686.71	5471.73	21885.55	
Other comprehensive income (OCI)	183.19	54.75	605.59	824.50	
Total comprehensive income	4725.51	7741.46	6077.32	22710.05	

8 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated quarterly unaudited financial results are available on stock exchange websites i.e https://www.nseindia.com and https://www.bseindia.com and on Company's website i.e. www.dhampur.com.

9 Figures for the previous corresponding periods have been regrouped, wherever considered necessary.

For and on behalf of the board
Sd/-
V.K. Goel
Chairman

Place : New Delhi
Dated : August 03, 2021

DHAMPUR SUGAR MILLS LIMITED

Regd. Office : Distt. Bijpur, Dhampur (U.P.) - 246761
CIN - L15249UP1933PLC000511, Phone No - 011-30659400, 30659453
Email: investor@dhampur.com, Website: www.dhampur.com